

Held on 10-02-2024

**निर्देश:** (प्रश्न सं. 1 से 15 तक) : प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है।

1. 'अंगूठा' का तत्सम रूप है :

- (A) अंगूठा
- (B) अंगुस्ठ
- ~~(C) अंगुष्ठ~~
- (D) अंगुष्ठा

2. 'सुलभ' का विलोम शब्द है :

- (A) अलम्प्य
- (B) अलभ
- (C) दुर्लभ
- (D) कुलभ

3. थॉमस अल्बा एडीसन ने बिजली के बल्ब \_\_\_\_\_।

वाक्य पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए :

(A) की खोज की  
 (B) का आविष्कार किया  
 (C) का अनुसंधान किया  
 (D) का संज्ञान लिया

4. रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए :

मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं।

(A) संज्ञा  
 (B) सर्वनाम  
 (C) क्रिया  
 (D) विशेषण

5. सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए :

- (A) स्वच्छता
- (B) स्वच्छता
- (C) स्वछ्छता
- (D) स्वच्छता

**निर्देश:** निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न सं. 6 से 10 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए।

योगाध्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है जिस पर आज सारी दुनिया मुध है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में योगाध्यास का महत्व सर्वविदित है। इसीलिए आज पूरे विश्व में लगभग दो अरब करोड़ लोग योग का अध्यास करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी है। इसलिए इससे दोहरा लाभ है। इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई चटाई, दरी या तौलिया बिछाकर या हरी दूब पर बैठकर घर या बाहर कहीं भी योगाध्यास कर सकते हैं। आधे घंटे के योगाध्यास से हमें दिनभर तक लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। स्वास्थ्य लाभ वह इतना सस्ता और सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता।

6. दिनभर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है :

- (A) पार्क में हरी दूब पर योगाध्यास करना
- (B) चटाई या तौलिया बिछाकर योगाध्यास करना
- (C) प्रतिदिन सुबह-शाम योगाध्यास करना
- (D) प्रतिदिन आधे घंटे योगाध्यास करना

7. योगाध्यास के लिए आवश्यक नहीं है :

- (A) रंगीन चटाई
- (B) नरम तौलिया
- (C) नई दरी
- (D) महँगे उपकरण

योग से दोहरा लाभ है, क्योंकि :

- भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है
- शरीर और मन दोनों का व्यायाम है
- तन और मन को एकाग्र रखता है
- सस्ता और सुलभ है

9. अनुच्छेद में 'मन को एकाग्र करना' का आशय है :

- केवल आगे की ओर देखना
- मन को एक बात पर लगाना
- एक बिंदु पर मन को स्थिर करना
- एक व्यक्ति को मन से चाहना

10. 'योगाध्यास' किन दो शब्दों से मिलकर बना है ?

- योग + ध्यास
- योग + अध्यास
- योग + अप्यास
- योग + आध्यास

मैं जानती हूँ कि माँ क्यों रूठी है।

रचना के अनुसार उपर्युक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा ?

- सरल वाक्य
- संयुक्त वाक्य
- मिश्र वाक्य
- प्रश्नार्थक वाक्य

12. बल-जोल में बड़ी शक्ति है। इसलिए हमें काम पूरा करना चाहिए।

रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त मुहावरा होगा ।

- एड़ी चोटी एक करके
- आँखें खोलकर
- छाती ठोककर
- कंधे से कंधा मिलाकर

13. निम्नलिखित में से 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा' लोकोक्ति का सही अभिप्राय है :

- अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना
- समय पर काम करने से कतराना
- काम की बात न करना
- अवसर पर चूक जाना

14. विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा।

रेखांकित शब्द का सही पद-परिचय किस विकल्प में दिया गया है ?

- व्यक्तिवाचक संज्ञा
- जातिवाचक संज्ञा
- भाववाचक संज्ञा
- समूहवाचक संज्ञा

15. शुद्ध वाक्य चुनिए :

- यह काम कौन किया ?
- यह काम किसने करा ?
- यह काम कौन ने किया ?
- यह काम किसने किया ?

## एवं - II / SECTION - II

## अंग्रेजी / ENGLISH

**Directions :** (Questions no. 16 to 30) For each question, four possible answer choices have been given, out of which only one is correct. Select the correct answer and indicate it at the appropriate place in the OMR Answer Sheet.

**Directions :** Read the following passage carefully and answer questions no. 16 - 18.

In a village, a shopkeeper used to sell his fruits at high prices, which brought him a lot of profit. But, he wasn't happy with it because he wanted to earn more. So, whenever a customer came to buy fruits from him, he cleverly reduced the weight a little. Now, he was earning more money. One day his friend came to buy some fruits from him and he did the same to his friend. When his friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion.

16. The shopkeeper manipulated his customers because he was \_\_\_\_\_.
- greedy
  - ambitious
  - angry
  - poor
17. How did the shopkeeper earn money ?
- By selling wood
  - By selling vegetables
  - By selling fruits
  - By selling grocery
18. The shopkeeper's friend grew \_\_\_\_\_.
- merciful
  - sympathetic
  - treacherous
  - suspicious

**Directions :** Answer questions no. 19 - 22 by choosing the most appropriate options to complete the paragraph by filling in the blanks.

Gulliver found that the strongest cables were no better than thin threads and the metal bars were like knitting needles. He made some strong cables by (19) multiple cables together. He also made some hooks by bending two-three metal bars together. He (20) tied the hooks at the ends of the cables and went to the shore with them. Before getting into the sea, Gulliver did not forget to put (21) his goggles to protect his eyes. Gulliver then waded through the sea water (22) was reaching only up to his chest.

19.  (A) twist  
 (B) twisted  
 (C) twisting  
 (D) twists
20.  (A) then  
 (B) when  
 (C) so  
 (D) but
21.  (A) out  
 (B) In  
 (C) of  
 (D) on
22.  (A) who  
 (B) which  
 (C) how  
 (D) while

23. Read the sentence given below and choose the option which correctly changes it into Passive Voice.

Whom did you invite ?

- (A) Whom was invited by you ?  
 (B) Who could be invited by you ?  
 (C) Who was invited by you ?  
 (D) Whom could be invited by you ?

24. The word which is opposite in meaning to 'mercilessly' is \_\_\_\_\_.

- (A) torturous  
 (B) cruelly  
 (C) kindly  
 (D) heartlessly

25. Choose the word similar in meaning to the underlined word.

It will be hard for us to recoup the loss.

- (A) cut  
 (B) retain  
 (C) spread  
 (D) recover

**Directions :** (Questions no. 26 – 28) Answer these questions by choosing the most appropriate options to fill in the blanks.

26. \_\_\_\_\_ seven Paralympians ran the hundred-metre race, but they were all declared winners.

- (A) None of the  
 (B) Neither of the  
 (C) Either of the  
 (D) Some of the

(6)

27. He realised that he could not buy the jacket this month because he had very \_\_\_\_\_ money left after meeting all expenses.
- (A) few  
 (B) little  
 (C) lesser  
 (D) some

28. The Amazon river in South America is the \_\_\_\_\_ river in the world.

- (A) longer  
 (B) longest  
 (C) a long  
 (D) most longest

29. Select the alternative that best expresses the following sentence in indirect speech :

Alan said, "After hearing the sad story of the laundry man, I quietly got up and walked back home."

- (A) Alan said to me that after hearing the laundry man's sad story I quietly got up and walked back home.  
 (B) Alan said that after hearing the laundry man's sad story, he quietly got up and walked back home.  
 (C) Alan was saying to me that after hearing the laundry man's sad story, he quietly got up and walked back home.  
 (D) Alan said that after hearing the laundry man's sad story, I quietly got up and walked back home.

30. Give one word substitute for the following expression :

'One who can be easily led to believe something'.

- (A) Indelible  
 (B) Incredible  
 (C) Gullible  
 (D) Invincible

## खण्ड - III / SECTION - III

## गणित / MATHEMATICS

**निर्देश:** (प्रश्न सं. 31 से 65 तक) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है।

**Directions :** (Questions no. 31 to 65) For each question, four possible answer choices have been given, out of which only one is correct. Select the correct answer and indicate it at the appropriate place in the OMR Answer Sheet.

- |   |  |
|---|--|
| <p>31. एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग, जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है, के क्षेत्रफल से क्या होगा ?</p> <p>(A) <math>1 : \sqrt{2}</math>      (B) <math>1 : 2</math><br/>     (C) <math>2 : 1</math>      (D) <math>\sqrt{2} : 1</math></p>   | <p>31. What is the ratio of the area of a square to the area of another square made on the diagonal of the first square ?</p> <p>(A) <math>1 : \sqrt{2}</math>      (B) <math>1 : 2</math><br/>     (C) <math>2 : 1</math>      (D) <math>\sqrt{2} : 1</math></p>  |
| <p>32. मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर, 20% मकान के किराए पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। वह प्रति मास अपनी आय के 10% की बचत करता है। पाई-चार्ट पर मकान के किराए का केंद्रीय कोण क्या है ?</p> <p>(A) <math>144^\circ</math>      (B) <math>36^\circ</math><br/>     (C) <math>72^\circ</math>      (D) <math>108^\circ</math></p> | <p>32. Mohan spends 40% of his monthly income on food items, 20% on house rent and 30% on miscellaneous items. He saves 10% of his income every month. What is the central angle for house rent on a pie-chart ?</p> <p>(A) <math>144^\circ</math>      (B) <math>36^\circ</math><br/>     (C) <math>72^\circ</math>      (D) <math>108^\circ</math></p> |
| <p>33. शब्द "MOVEMENT" से एक अक्षर यादृच्छया चुना जाता है। इस अक्षर के M होने की प्रायिकता क्या है ?</p> <p>(A) <math>\frac{1}{2}</math>      (B) <math>\frac{1}{4}</math><br/>     (C) <math>\frac{2}{7}</math>      (D) <math>\frac{1}{8}</math></p>  | <p>33. One of the letters from the word "MOVEMENT" is chosen at random. What is the probability that this letter is M ?</p> <p>(A) <math>\frac{1}{2}</math>      (B) <math>\frac{1}{4}</math><br/>     (C) <math>\frac{2}{7}</math>      (D) <math>\frac{1}{8}</math></p>  |
| <p>34. लकड़ी के एक बीम की लम्बाई 5 मी. और मोटाई 36 सेमी है। यह 1.35 घन मी. लकड़ी से बनी है। इस बीम की चौड़ाई क्या है ?</p> <p>(A) 15 सेमी      (B) 25 सेमी<br/>     (C) 75 सेमी      (D) 80 सेमी</p>  | <p>34. A beam of wood is 5 m long and 36 cm thick. It is made of 1.35 cu m of wood. What is the width of the beam ?</p> <p>(A) 15 cm      (B) 25 cm<br/>     (C) 75 cm      (D) 80 cm</p>  |
| <p>35. एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मी. है। यदि इसकी लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है, तो इस खेल के मैदान का परिमाप होगा :</p> <p>(A) 500 मी.      (B) 800 मी.<br/>     (C) 1000 मी.      (D) 1200 मी.</p>  | <p>35. The area of a school's rectangular playground is 38,400 sq m. If the ratio of its length to breadth is 3 : 2, then the perimeter of the playground is :</p> <p>(A) 500 m      (B) 800 m<br/>     (C) 1000 m      (D) 1200 m</p>   |

- 36.** यदि किसी वस्तु का बिक्री में 10% की छूट दी जाए तो उसका बिक्री मूल्य 100 रुपये से कम होता है। यदि इसी वस्तु का बिक्री मूल्य 100 रुपये हो तो उसका बिक्री मूल्य किसी भी छूट के बाद किसी भी वस्तु का बिक्री मूल्य होगा ?
- (A) 90  
✓ (B) 82  
(C) 40
- 37.** यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 100 रुपये हो तो उसका बिक्री मूल्य किसी भी छूट के बाद किसी भी वस्तु का बिक्री मूल्य होगा ?
- (A) 70  
✓ (B)  $5\frac{1}{2}\%$   
(C) 60
- 38.** यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 100 रुपये हो तो उसका बिक्री मूल्य किसी भी छूट के बाद किसी भी वस्तु का बिक्री मूल्य होगा ?
- (A) ₹ 90,000  
✓ (B) ₹ 84,000  
(C) ₹ 80,000  
(D) ₹ 76,000
- 39.**  $x^4 + 4x^2 + 10$  का  $x^2 - 2x + 4$  द्वारा भाग देने पर शेषफल किसी भी :
- (A) -6  
(B) 6  
(C) 4  
✓ (D) -4
- 40.** यदि L और M अपेक्षाकृत हों तो L, 10 रु., तो M 6 रु. होता है। यदि L, 3 गुना M का तिकड़ा होना का अपेक्षित योग नहीं होता है ?
- (A) 12 और 6  
✓ (B) 15 और 4  
(C) 45 और 1.3  
(D) 25 और 2.4

What percentage of profit should be added to the cost price of a commodity so as to gain a profit of 30% after allowing 5% discount to the customer?

- (A) 40  
✓ (B) 45  
(C) 48  
(D) 52
- 37.** On a certain sum, the simple interest at the end of  $3\frac{1}{4}$  years becomes  $\left(\frac{3}{5}\right)$  of the sum. The rate percent is :
- (A) 7%  
✓ (B) 6%  
(C) 5%  
(D)  $5\frac{1}{2}\%$
- 38.** A sum of money is kept at 5% p.a. compound interest for a period of 3 years. If the compound interest earned is ₹ 1,201, what is the sum of money invested?
- (A) ₹ 9,000  
✓ (B) ₹ 8,400  
✓ (C) ₹ 8,000  
(D) ₹ 7,600
- 39.** The remainder obtained, on dividing  $x^4 + 4x^2 + 10$  by  $x^2 - 2x + 4$ , is :
- (A) 6  
(B) -6  
(C) 4  
✓ (D) -4
- 40.** Suppose L and M vary inversely. When L = 10, M is 6.
- Which of the following is *not* a possible pair of corresponding values of L and M?
- (A) 12 and 6  
✓ (B) 15 and 4  
(C) 45 and 1.3  
(D) 25 and 2.4

41. 24 सिक्कों में ₹ 1, ₹ 2 और ₹ 5 के सिक्के शामिल हैं। इन 24 सिक्कों का कुल मान ₹ 62 है। यदि ₹ 1 के सिक्कों की संख्या और ₹ 5 के सिक्कों की संख्या समान है, तो ₹ 5 के कितने सिक्के हैं?

- (A) 5 (B) 7  
(C) 12 (D) 16

42. यदि  $x = 7 - 4\sqrt{3}$  है, तो  $\left(x + \frac{1}{x}\right)$  का मान है:

- (A)  $3\sqrt{3}$  (B)  $8\sqrt{3}$   
(C)  $14 + 8\sqrt{3}$  (D) 14

43. यदि पाँच लगातार पूर्णांकों का योगफल S है, तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक, S के साथ किस तरह से संबंधित है?

- (A)  $\frac{S-10}{5}$  (B)  $\frac{S+4}{4}$   
(C)  $\frac{S+5}{4}$  (D)  $\frac{S+10}{5}$

44. प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात् प्रेम की आयु, अशोक की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है?

- (A) 48 वर्ष (B) 60 वर्ष  
(C) 64 वर्ष (D) 72 वर्ष

41. In 24 coins, there are ₹ 1 coins, ₹ 2 coins and ₹ 5 coins. The value of these 24 coins is ₹ 62. If the number of ₹ 1 coins and the number of ₹ 5 coins is equal, then how many ₹ 5 coins are there?

- (A) 5 (B) 7  
~~12~~ (D) 16

42. If  $x = 7 - 4\sqrt{3}$ , then the value of  $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ :

- (A)  $3\sqrt{3}$  (B)  $8\sqrt{3}$   
(C)  $14 + 8\sqrt{3}$  (D) 14

43. If the sum of five consecutive integers is S, then how is the greatest of these integers related to S?


- (A)  $\frac{S-10}{5}$  (B)  $\frac{S+4}{4}$   
(C)  $\frac{S+5}{4}$  (D)  $\frac{S+10}{5}$

44. Prem is 3 times older than his son Ashok. After 15 years, Prem will be twice the age of Ashok. What is the sum of their present ages?

- (A) 48 years (B) 60 years  
(C) 64 years (D) 72 years

BF924 - F

45. ABCD एक समद्विबाहु समवर्त्य है, यानि  $AD = BC$ . तो:




(A)  $AD = CD$

~~(C)~~  $\angle A = \angle D$

(B)  $\angle A = \angle B$

(D)  $\angle A = \angle C$

46. चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है। यदि  $\angle DMC = 90^\circ$  तथा  $\angle DAB = 110^\circ$  है, तो  $\angle BDC$  का माप होगा:



(A)  $20^\circ$

(C)  $40^\circ$

(B)  $35^\circ$

~~(C)~~  $45^\circ$

47. 44 सेमी  $\times$  18 सेमी आयाम के पेपर की एक आवताकार शीट को लम्बाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन क्या है?

(A) 2772 घन सेमी (B) 2722 घन सेमी

~~(C)~~ 2727 घन सेमी (D) 2277 घन सेमी

48. एक आवत की आसन्न भुजाओं का अनुपात  $5 : 3$  है और उसका क्षेत्रफल 125 वर्ग सेमी है। इस आवत का परिमाप है:

(A) 135 सेमी


(C) 81 सेमी

(B) 54 सेमी

~~(D)~~ 48 सेमी

(10)

ABCD is an isosceles trapezium, i.e.,  $AD \parallel BC$ . Then:




(B)  $\angle A = \angle B$

~~(C)~~  $AD = CD$

~~(C)~~  $\angle A = \angle D$

(D)  $\angle A = \angle C$

46. In the figure, ABCD is a rhombus. If  $\angle DMC = 90^\circ$  and  $\angle DAB = 110^\circ$ , then the measure of  $\angle BDC$  is:



~~(A)~~  $30^\circ$

~~(B)~~  $35^\circ$

~~(C)~~  $40^\circ$

(B)  $35^\circ$

~~(D)~~  $45^\circ$

47. A rectangular sheet of paper  $44 \text{ cm} \times 12$ , rolled along its length and a cylinder formed. What is the volume of that cylinder?

(A) 2772 cu cm

~~(C)~~ 2727 cu cm

(B) 2722 cu cm

(D) 2277 cu cm

48. The adjacent sides of a rectangle are in ratio  $5 : 3$  and its area is  $125 \text{ sq cm}$ . Perimeter of the rectangle is:

(A) 135 cm

(B) 54 cm

(C) 81 cm

~~(D)~~ 48 cm

49. एक भरा हुआ ट्रक 35 मिनट में 18 कि.मी. की दूरी तय करता है। इसी गति से, वह 7 घंटों में कितनी दूरी तय कर सकता है?

- (A) ~~196~~ कि.मी. (B) 192 कि.मी.  
 (C) 216 कि.मी. (D) 212 कि.मी.

50. यदि एक कार्य को 28 व्यक्ति 65 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति 35 दिनों में पूरा कर सकेंगे?

- (A) 48 (B) 46  
 (C) 52 (D) 56

51.  $\sqrt[r]{\frac{9^{(\frac{r+1}{4})} \sqrt{3.3^{-r}}}{\sqrt{3^{2-r}}}}$  बराबर है:

- (A) 1 (B)  $\frac{1}{3}$   
 (C) 3 (D) 9

52.  $\frac{2^x + 2^{x-1}}{2^{x+1} - 2^x}$  बराबर है:

- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{3}{2}$   
 (C) 1 (D)  $\frac{2}{3}$

49. A loaded truck covers 18 km in 35 minutes. At the same speed, how far can it travel in 7 hours?

- (A) ~~196~~ km (B) 192 km  
 (C) 216 km (D) 212 km

50. If 28 people can do a work in 65 days, how many people can do the same work in 35 days?

- (A) 48 (B) 46  
 (C) ~~52~~ (D) 56

51.  $\sqrt[r]{\frac{9^{(\frac{r+1}{4})} \sqrt{3.3^{-r}}}{\sqrt{3^{2-r}}}}$  is equal to:

- (A) 1 (B)  $\frac{1}{3}$   
 (C) ~~3~~ (D) 9

52.  $\frac{2^x + 2^{x-1}}{2^{x+1} - 2^x}$  is equal to:

- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{3}{2}$   
 (C) 1 (D)  $\frac{2}{3}$

**BF924 - F**

53.  $\frac{(0.75)^3}{1-0.75} + [0.75 + (0.75)^2 + 1]$  का धनात्मक वर्गमूल है :

- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1

54. दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल  $29\frac{31}{49}$  है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। बड़ी संख्या क्या है?

- (A)  $\frac{22}{7}$
- (B)  $\frac{66}{7}$
- (C)  $\frac{37}{7}$
- (D)  $\frac{68}{7}$

55. यदि  $a = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$  तथा  $b = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$  है, तो  $\frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 - ab + b^2}$  बराबर है:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) 0.75          | (B) 1.25          |
| (C) $\frac{3}{5}$ | (D) $\frac{4}{3}$ |

12

53. The positive square root of  $\frac{(0.75)^3}{1-0.75} + [0.75 + (0.75)^2 + 1]$  is :

- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1

54. The product of two positive numbers is 29 and one of them is three times the other. Which is the greater number?

- (A)  $\frac{22}{7}$
- (B)  $\frac{66}{7}$
- (C)  $\frac{37}{7}$
- (D)  $\frac{68}{7}$

55. If  $a = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$  and  $b = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$ , then  $\frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 - ab + b^2}$  is :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) 0.75          | (B) 1.25          |
| (C) $\frac{3}{5}$ | (D) $\frac{4}{3}$ |

56. तीन संख्याएँ  $2 : 3 : 4$  के अनुपात में हैं और उनके घनों का योगफल 2673 है। इन तीन संख्याओं का योगफल है :

(A) 26 (B) 27  
 (C) 28 (D) 29

57. यदि  $(32)^{2x+1} = 8^{-x} \cdot 4^{-4}$  है, तो x का मान होगा :

(A) 1  
 (C) 2

58.  $\left[ \sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}} \right]^4$   $\left[ \sqrt[6]{\sqrt[3]{5^9}} \right]^4$  बराबर है :

(A)  $5^2$       (B)  $5^4$   
 (C)  $5^8$       (D)  $5^{12}$

59. यदि  $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \left[ n \left( \frac{n+1}{2} \right) \right]^2$ ,  
जहाँ 'n' एक प्राकृत संख्या है, तो  
 $1^3 - 2^3 + 3^3 - 4^3 + 5^3 - 6^3 + 7^3 - 8^3 + 9^3 - 10^3$   
बराबर है :

60.  $\left( \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt{16}} \div \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{49}} \times \sqrt[3]{125} \right)$  बराबर है :

(A) 7      (B)  $\frac{7}{4}$

(C)  $\frac{t}{100}$

56. Three numbers are in the ratio 2 : 3 : 4 and sum of their cubes is 2673. The sum of these three numbers is :

(A) 26      (D) 29

57. If  $(32)^{2x+1} = 8^{-x} 4^{-4}$ , then the value of x is :

(A) 1  
~~(B)~~ 2  
(C) - 1  
(D) - 2

58.  $\left[ \sqrt[3]{\sqrt[6]{5^9}} \right]^4 \left[ \sqrt[6]{\sqrt[3]{5^9}} \right]^4$  is equal to :

(A)  $5^2$       (B)  $5^4$   
~~(C)  $5^8$~~       (D)  $5^{12}$

- $$59. \quad \text{If } 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \left[ n \left( \frac{n+1}{2} \right) \right]^2$$

where 'n' is a natural number, the value of  $1^3 - 2^3 + 3^3 - 4^3 + 5^3 - 6^3 + 7^3 - 8^3 + 9^3 - \dots + (-1)^{n-1} n^3$  is equal to :



- 60.**  $\left( \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt{16}} \div \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{49}} \times \sqrt[3]{125} \right)$  is equal to :

(B)  $\frac{7}{4}$

- (C)  $\frac{7}{100}$       (D)  $\frac{4}{7}$

**BF924 - F**

61. निम्न समीकरण में  $x$  का मान क्या है ?

$$\frac{5(x+6) - 15(2-x)}{3x-1} = 10$$

- (A)  $x = 1$   
(C)  $x = 2$

- (B)  $x = -1$   
(D)  $x = -2$

62. यदि किसी एक संख्या से  $\frac{1}{2}$  घटाया जाए और फिर अन्तर को 8 से गुणा किया जाए, तो 12 प्राप्त होता है। संख्या क्या है ?

- (A) 2  
(C) 4

- (B) 3  
(D) 8

63. यदि  $\frac{5x}{3} - 4 = \frac{2x}{5}$  है, तो  $(2x-7)$  का मान है :

- (A)  $\frac{19}{13}$   
(C) 0

- (B)  $-\frac{13}{19}$   
(D)  $\frac{13}{19}$

64. यदि  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$  है, तो

$$x^{206} + x^{200} + x^{90} + x^{84} + x^{18} + x^{12} + x^6 + 1$$

का मान है :

- (A) 0  
(C) 84

- (B) 1  
(D) 206

65. यदि  $x + \frac{1}{x} = 5$  है, तो  $\frac{2x}{3x^2 - 5x + 3}$  का मान है :

- (A) 5  
(B)  $\frac{1}{5}$

- (C) 4  
(D)  $\frac{1}{4}$

( 14 )

What is the value of  $x$  in the equation ?

$$\frac{5(x+6) - 15(2-x)}{3x-1} = 10$$

- (B)  $x = -1$   
(A)  $x = 1$   
(C)  $\cancel{x = 2}$   
(D)  $x = -2$

62. If  $\frac{1}{2}$  is subtracted from a number and its difference is multiplied by 8, the result is 12. What is this number ?

- (B) 3  
(A) 2  
(C)  $\cancel{4}$   
(D) 8

63. If  $\frac{5x}{3} - 4 = \frac{2x}{5}$ , then the value of  $(2x-7)$  is

- (B)  $-\frac{13}{19}$   
(A)  $\frac{19}{13}$   
(C) 0  
(D)  $\frac{13}{19}$

64. If  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$ , then the value of

$$x^{206} + x^{200} + x^{90} + x^{84} + x^{18} + x^{12} + x^6 + 1$$

is :

- (A) 0  
(C) 84  
(B) 1  
(D) 206

65. If  $x + \frac{1}{x} = 5$ , then the value of  $\frac{2x}{3x^2 - 5x + 3}$  is :

- (A) 5  
(B)  $\frac{1}{5}$

- (C) 4  
(D)  $\frac{1}{4}$

## खण्ड - IV / SECTION - IV

### सामान्य विज्ञान / GENERAL SCIENCE

न सं. 66 से 100 तक) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। उक्त उपर्युक्त उपर्युक्त उत्तर पत्रिका पर उसी स्थान पर दर्शाना है।

(Questions no. 66 to 100) For each question, four possible answer choices have been given, out of which only one is correct. Select the correct answer and indicate it at the appropriate place in the OMR sheet.

काश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठी विन्दु पर इस प्रकार आपत्ति करती है कि आपत्ति किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। यदि यह किरण  $10^\circ$  के कोण से दर्पण की दूरी पूरक दर्पण के उसी विन्दु पर आपत्ति करती है, तो आपत्ति किरण और नई परावर्तित किरण के बीच का कितना होगा?

100°  
110°  
130°  
140°

नेत्र का वह भाग कौन-सा है जो उसे विशिष्ट रंग देता है?

कॉर्निया  
परितारिका  
लैस  
मुतली

आपत्ति किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण  $130^\circ$  है, तो आपत्ति किरण और दर्पण की दूरी पूरक पृष्ठ के बीच का कोण कितना है?

25°  
35°  
55°  
65°

66. A ray of light is incident at a point on the reflecting surface of a plane mirror so that the angle between the incident ray and the reflected ray is  $120^\circ$ . If this ray is turned through an angle of  $10^\circ$  towards the reflecting surface keeping the point of incidence same, the angle between the incident ray and the new reflected ray will be:
- (A)  $100^\circ$
  - (B)  $110^\circ$
  - ~~(C)~~  $130^\circ$
  - (D)  $140^\circ$

67. The part of human eye which gives it a distinct colour is:
- ~~(A)~~ cornea
  - (B) iris
  - (C) lens
  - (D) pupil

68. If the angle between the incident ray and the reflected ray is  $130^\circ$ , the angle between the incident ray and the reflecting surface of the mirror is:
- ~~(A)~~  $25^\circ$
  - (B)  $35^\circ$
  - (C)  $55^\circ$
  - (D)  $65^\circ$

69. भूकंप अधिकतर इनके कारण आते हैं :
- ज्वालामुखी विस्फोट (उदगार)
  - उल्का पिण्ड का पृथ्वी से टकराना
  - भूमिगत नाभिकीय विस्फोट
  - पृथ्वी की पपड़ी में पृथ्वी की प्लेटों की गति
70. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए :
- तड़ित चालक भवनों/इमारतों की तड़ित प्रभाव से सुरक्षा कर सकते हैं।
  - अधिकांश भूकंप अधिक गहराई पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोटों के कारण आते हैं।
  - तड़ित के समय, कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बन्द करके, कम्प्यूटर और टी वी का उपयोग सुरक्षित होता है।
  - किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं इसके परीक्षण के लिए किसी विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है।
- इनमें से सही कथन हैं :
- केवल 1 और 2
  - केवल 2 और 3
  - केवल 3 और 4
  - केवल 1 और 4
71. कौन-सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है ?
- चुम्बकीय सुई का विचलन जब उसे किसी विद्युत धारावाही तार के पास रखें
  - विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा व प्रकाश का उत्सर्जन
  - पंखे के ब्लेड का घूर्णन, जब धारा पंखे में से प्रवाहित होती है
  - ग्रैफाइट के इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुलों का प्रकट होना जब उन्हें आंशिक रूप से पानी, जिसमें कुछ मात्रा अम्ल की है, में डुबोते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है

70. Earthquakes are mostly caused by
- volcanic eruption
  - collision of meteors with earth
  - underground nuclear explosion
  - movement of earth's plates in earth crust

70. Study the following statements :
- Lightning conductors can protect buildings from the effect of lightning.
  - Most earthquakes are caused due to nuclear explosions deep inside the earth.
  - During lightning, it is safer to keep computers and TV, keeping doors & windows closed.
  - An electroscope is used to test whether an object is carrying charge or not.

The correct statements are :

- 1 and 2 only
- 2 and 3 only
- 3 and 4 only
- 1 and 4 only

71. Which one is the example of chemical effect of electric current ?
- Deflection of magnetic needle placed near a wire carrying electric current
  - Emission of heat and light from bulb when electric current is passed through it
  - Rotation of blades of fan, when current is passed through the fan
  - Appearance of gas bubbles near graphite electrodes immersed in water containing a little quantity of an acid when current is passed through the set-up

72. संगीत उपकरण 'एकतारा' व 'मंजिरा' में कम्पन के भाग क्रमशः होते हैं :
- स्वयं उपकरण ही व वायु-स्तंभ
  - वायु-स्तंभ व तानित झिल्ली
  - तानित डोरी व स्वयं उपकरण ही
  - तानित झिल्ली व स्वयं उपकरण ही
73. किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होगी ध्वनि की/के :
- आवर्तकाल में
  - वेग में
  - आवृत्ति में
  - आयाम में
74. वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारत्व निर्भर करते हैं क्रमशः हैं :
- ध्वनि का आयाम व चाल
  - ध्वनि का आयाम व आवृत्ति
  - ध्वनि की आवृत्ति व आयाम
  - ध्वनि की चाल व आवृत्ति
75. आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी कम्पन का आयाम बढ़ता है, तो उत्पन्न ध्वनि :
- का तारत्व कम हो जाता है
  - अधिक तीक्ष्ण (तीखी) हो जाती है
  - का तारत्व अधिक हो जाता है
  - प्रबल हो जाती है
72. In musical instruments 'Ektara' and 'Manjira' the vibrating parts are respectively :
- The instrument itself and air-column
  - ~~Air-column and stretched membrane~~
  - Stretched string and the instrument itself
  - Stretched membrane and the instrument itself
73. To change a feeble sound to a loud sound we will have to increase its :
- Time period
  - Velocity
  - ~~Frequency~~
  - Amplitude
74. The factors on which the loudness and pitch of a sound respectively depend are :
- Amplitude and speed of sound
  - Amplitude and frequency of sound
  - Frequency and amplitude of sound
  - ~~Speed of sound and frequency~~
75. Amplitude and frequency are two important properties of any sound. When the amplitude of vibrations increases, the sound produced becomes :
- low pitched
  - ~~more shrill~~
  - high pitched
  - louder

BF924 - F

76. गलभौं (मांथ) और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली त्रैफ्यलीन की निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं ?

- (A) कोलतार
- (B) कोक
- (C) कोल गैस (कोयला गैस)
- (D) बिटुमेन

77. नीचे दो कॉलम - कॉलम I और कॉलम II दिए गए हैं :

कॉलम I	कॉलम II
(रोग)	(फैलाने वाले सूक्ष्मजीव)
(i) गेहूँ का रस्त	(a) प्रोटोज़ोआ
(ii) टाइफाइड	(b) वाइरस
(iii) पॉलियो	(c) कवक
(iv) मलेरिया	(d) जीवाणु

निम्नलिखित में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें रोगों का उनको फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों से सही मिलान किया गया है :

- (A) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
- (B) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(c), (iv)-(d)
- (C) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)
- (D) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(c)

( 18 )

Naphthalene balls used to repel moths ; other insects are obtained from :

- (A) Coal-tar
- (B) Coke
- (C) Coal gas
- (D) Bitumen

77. Given below are two columns - Column I :

Column II :

Column I  
(Disease)

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| (i) Rust of wheat | (a) Protozoa |
| (ii) Typhoid      | (b) Virus    |
| (iii) Polio       | (c) Fungi    |
| (iv) Malaria      | (d) Bacteria |

Column II  
(Causative  
Microorganism)

Identify the option which correctly matches the disease with its causative microorganism

- (A) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
- (B) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(c), (iv)-(d)
- (C) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)
- (D) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(c)

Compounds ~~common~~ become solid lumps in the presence of which one of the following elements is viable?

- A Carbon
- B Chlorine
- C Iodine
- D Nitrogen

73. The region containing instant forces only is

- A Force of friction and muscular force
- B Electrostatic force and frictional force
- C Gravitational force and muscular force
- D Magnetic force and electrostatic force

74. A rectangular box of length 30 cm, breadth 15 cm and height 11 cm is kept on a table with its three faces of different areas touching the table. If the mass of the box is 100 kg, in all cases, the box exerts on the table:

- A same force and same pressure
- B same force but different pressure
- C different force but same pressure
- D different force and different pressure

75. Which one of the following changes does not occur during adolescence?

- A Sudden increase in height
- B Growth of the larynx
- C Development of secondary sexual characters
- D Complexion colour of the skin

BP924 - F

82. कलम I और कलम II का मिलान करके सही मिलान  
 करें :
- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (A) तैकटोबैसिस   | प्रतिरक्षी का निर्माण |
| (B) पेनिसिलिन    | नाइट्रोजन स्थिरीकरण   |
| (C) जैव हरे शंखल | भाघ परिरक्षण          |
| (D) बैक्टेरिया   |                       |

( 20 )

82. Match Column I and Column II and select the correct matching:

Column I

(A) Lactobacillus

(B) Penicillium

(C) Blue green algae

(D) Yeast

Column II

Fermentation

Production of antibodies

Fixation of nitrogen

Food preservation

83. लुइ पास्टर द्वारा द्वन्द्वजीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई दो खोजें क्रमशः हैं :

- |                                     |
|-------------------------------------|
| (A) पास्टराइज़ेशन और वैक्सीन (टीका) |
| (B) किण्वन और पास्टराइज़ेशन         |
| (C) पास्टराइज़ेशन और एन्टिबायोटिक   |
| (D) किण्वन और वैक्सीन (टीका)        |

83. The two discoveries made by Louis Pasteur for the commercial use of microorganisms respectively are :

- (A) pasteurisation and vaccines
- (B) fermentation and pasteurisation
- (C) pasteurisation and antibiotics
- (D) fermentation and vaccines

84. दो फ़सलों के उस समूह को चुनिए जिन्हें भूमि में पोषक-तत्त्वों की पुनःपूर्ति के लिए एक के बाद दूसरी को खेत में उगाया जाता है।

- (A) धान व गेहूँ
- (B) फलियाँ व गेहूँ
- (C) धान व मक्का
- (D) मक्का व कपास

85. किसी फ़सल के बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को कहते हैं :

- |              |              |
|--------------|--------------|
| (A) थ्रेशिंग | (B) फटकना    |
| (C) जुताई    | (D) समतलीकरण |

86. कृषि पद्धतियों में एक कार्य मिट्टी तैयार करना है जिसके फलस्वरूप आरम्भ में मिट्टी पोली हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक इस पद्धति का लाभ नहीं है ?

- (A) जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं
- (B) पोषण प्रचुर मिट्टी ऊपर आ जाती है
- (C) मिट्टी को समतल बनाने में सहायक होती है
- (D) केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है

84. Select a group of two crops which are grown alternately in a field to replenish the soil with nutrients.

- (A) Paddy and Wheat
- (B) Legumes and Wheat
- (C) Paddy and Maize
- (D) Maize and Cotton

85. Weeding is done before sowing a crop by an agricultural practice known as :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> (A) Threshing | <input checked="" type="checkbox"/> (B) Winnowing |
| (C) Tilling                                       | <input checked="" type="checkbox"/> (D) Levelling |

86. One of the agricultural practices is preparation of soil resulting in loosening of soil initially. Which one of the following statements is *not* an advantage of this practice ?

- (A) Allows the roots to breathe easily
- (B) Brings the nutrient-rich soil to the top
- (C) Helps in levelling the soil
- (D) Helps in the growth of earthworms and microbes

( 22 )

BF924 - F

87. देश में बायों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की जिसे "बाय परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)" कहते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसमें लागू की गई थी?

- (A) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान  
 (B) बोरी वन्यजन्तु अभ्यारण्य  
 (C) सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान  
 (D) पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र

88. कॉलम I और कॉलम II का मिलान करके उस विकल्प को चुनिए जिसका मिलान सही नहीं है:

कॉलम I

- (A) अभ्यारण्य  
 (B) प्राणिजाति  
 (C) संकटापन्न जन्तु  
 (D) विशेष क्षेत्री प्रजाति

कॉलम II

- जलावन पौधों की लकड़ी और औषधीय पौधों को एकत्र करने जैसे कार्यकलापों की स्वीकृति  
 किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे  
 प्राकृतिक आवासों की क्षति के कारण उनकी संख्या का घटना  
 केवल किसी एक क्षेत्र में ही पाया जाना

87. For the protection of tigers in the country Government of India launched a project known as "Project Tiger". This project was launched in :

- (A) Kaziranga National Park  
 (B) ~~Bori Wildlife Sanctuary~~  
 (C) Satpura National Park  
 (D) Pachmarhi Biosphere Reserve

88. Match Column I with Column II and select the mismatched option :

Column I

- (A) Sanctuary

Column II

Certain activities like collecting firewood and medicinal plants allowed

- (B) Fauna

Plants found in a particular area

- ~~(C) Endangered animals~~

Numbers decreasing due to loss of natural habitat

- (D) Endemic species

Found exclusively in an area

( 23 )

89. किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब सदैव होता है :
- वास्तविक, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा
  - आभासी, उल्टा और वस्तु के समान आकार का
  - आभासी, सीधा और बड़ा (आवर्धित)
  - आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा

90. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए :

- भूसम्पर्कन वह प्रक्रिया है जिसमें आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी पर स्थानान्तरित किया जाता है।
- तड़ित की अवधि में विद्युत विसर्जन दो आवेशित बादलों के बीच होने के साथ आवेशित बादलों और पृथ्वी के बीच भी होता है।
- गरज वाले तूफानों के समय वायु की धाराओं के कारण बादलों के ऊपरी किनारों के निकट ऋणावेश एकत्र हो जाता है तथा धनावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं।
- जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मिलते हैं, तो चमकीली धारियाँ और ध्वनि उत्पन्न होती हैं।

इनमें से सही कथन हैं :

- केवल 1 और 2
- केवल 3 और 4
- 1, 2 और 4
- 1, 3 और 4

89. The image formed by a convex mirror is always :
- Real, erect and smaller than the size of the object
  - Virtual, inverted and of the same size as the object
  - Virtual, erect and magnified
  - ~~Virtual, erect and smaller than the size of the object~~

90. Study the following statements :

- Earthing is a process by which electric charge on charged objects is transferred to the earth.
- During lightning electric discharge occurs between two charged clouds and between the charged clouds and earth.
- During development of thunders due to air currents, negative charges collect near the upper edge of the clouds and positive charges near the lower edges.
- When positive and negative charges meet, streaks of bright light and sound are produced.

The correct statements are :

- 1 and 2 only
- 3 and 4 only
- 1, 2 and 4
- ~~1, 3 and 4~~

(24)

Select the correct statement from the following:

- (A) Frictional force depends on the shape of the object and the nature of the fluid.
- (B) Frictional force on an object does not depend on its speed with respect to the fluid in which it moves.
- (C) ✓ Frictional force always acts in the direction of motion.
- (D) Because air is very light and thin, it does not exert any frictional force on the freely falling objects.

91. विनालिखित में से सही कथन चुनिए :  
प्र० द्रव की प्रकृति पर

- (A) धर्षण बल उस के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है।
- (B) किसी वस्तु पर लगने वाला धर्षण बल, जिस तरल में वह गति कर रहा है उस तरल के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है।
- (C) धर्षण बल सदैव गति की दिशा में कार्य करता है।
- (D) क्योंकि ग्रय अत्यन्त हल्की और विरल है, अतः यह मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं पर कोई धर्षण बल नहीं लगती है।

92. मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परिसर

- (परास) है :
- (A) 10 Hz से 200 Hz तक
- (B) 20 Hz से 20,000 Hz तक
- (C) 1,000 Hz से 15,000 Hz तक
- (D) 20,000 Hz से 30,000 Hz तक

93. भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लम्बा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती के रूप में लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे :

- (A) बोझ के प्रणोद को घटा लेते हैं।
- (B) अपने सिर को संभावित चोट से बचा लेते हैं।
- (C) अपने सिर पर बोझ ढारा लगाने वाले बल को घटा लेते हैं।
- (D) अपने सिर से बोझ के सम्पर्क-क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं।

92. The audible range of frequencies for human ear is :

- (A) 10 Hz to 200 Hz
- (B) ✓ 20 Hz to 20,000 Hz
- (C) 1,000 Hz to 15,000 Hz
- (D) 20,000 Hz to 30,000 Hz

93. Porters who carry heavy loads always have a long piece of cotton cloth with them. Before carrying the load on their heads they fold the cloth in the form of a round disc and place it on their heads. By doing this they :

- (A) decrease the thrust of the load.
- (B) save their heads from possible injury.
- (C) ✓ decrease the force exerted by the load on their heads.
- (D) increase the area of contact of the load with their heads.

( 25 )


94. हाइड्रा और यीस्ट के जनन की विधियाँ समान हैं क्योंकि  
दोनों के जनन की विधि है :
- (A) लैंगिक  
(B) द्विखण्डन  
(C) मुकुलन  
(D) बाह्य निषेचन
95. बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किसमें होता है ?  
 (A) मेंढक (B) गौरैया  
 (C) बिल्ली (D) मगरमच्छ (घड़ियाल)
96. निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति में शर्करा को  
नियंत्रित करने वाले हाँस्पॉन का उत्पादन करता है ?  
 (A) एंड्रिनल ग्रंथि  
(B) अन्याशय  
(C) पीयूष ग्रंथि  
(D) थायरॉइड ग्रंथि
97. कॉलम I में दिए गए मानव मादा जनन तंत्र के अंगों का  
मिलान कॉलम II में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए :  
 कॉलम I    कॉलम II  
 (i) अण्डाशय                                    (a) शिशु का विकास होता है  
 (ii) फेलोपियन नलिका                    (b) मादा युग्मक का निर्माण  
 (iii) गर्भाशय                                    (c) विकसित अंडाणु (डिम्ब) का प्रोचन  
 (A) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c)  
 (B) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(b)  
 (C) (i)-(a), (ii)-(c), (iii)-(b)  
 (D) (i)-(b), (ii)-(c), (iii)-(a)

94. Reproduction in Hydra is similar to yeast as they both reproduce :  
 (A) sexually  
 (B) by binary fission  
 (C) by budding  
 (D) by external fertilisation

95. External fertilisation occurs in :  
 (A) Frog    (B) Sparrow  
 (C) Cat    (D) Crocodile

96. Which one of the following produces a hormone which controls sugar in a person ?  
 (A) Adrenal gland  
 (B) Pancreas  
 (C) Pituitary gland  
 (D) Thyroid gland

97. Match the organs of human female reproductive system given in Column I with Column II giving the functions they perform :  
 Column I    Column II

- |   |  |
|---|--|
|  | (a) Development of the baby takes place<br>(b) Production of female gamete<br>(c) Mature egg is released |
| (i) Ovaries<br>(ii) Fallopian tubes<br>(iii) Uterus                                   | (a)<br>(b)<br>(c)  |

- (A) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c)  
 (B) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(b)  
 (C) (i)-(a), (ii)-(c), (iii)-(b)  
 (D) (i)-(b), (ii)-(c), (iii)-(a)

<p><b>BF924 - F</b></p> <p>88. निम्नलिखित में से कौन से एक ईंधन का ऊर्जीय मान (26) सर्वाधिक है ?</p> <p>(A) पेट्रोल      (B) सी एन जी      (C) डीजल      (D) लकड़ी</p> <p>89. बनोन्मूलन का परिणाम है :</p> <p>(A) वर्षा और मृदा की उर्वरता में वृद्धि      (B) भौम जल स्तर में वृद्धि      (C) वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि      (D) वायुमण्डल में प्रदूषण के स्तर में कमी</p> <p>90. कॉलम I में पेट्रोलियम के कुछ संघटक और कॉलम II में उनके उपयोग दिए गए हैं। संघटकों का उनके उपयोगों से सही मिलान कीजिए :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">कॉलम I</th> <th style="text-align: center;">कॉलम II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) पैराफिन मोप</td> <td>(a) भारी मोटर वाहनों का ईंधन</td> </tr> <tr> <td>(ii) बिटुमेन</td> <td>(b) निर्जल धुलाई (ड्राई क्लीनिंग) के लिए विलायक</td> </tr> <tr> <td>(iii) डीजल</td> <td>(c) पेन्ट</td> </tr> <tr> <td>(iv) पेट्रोल</td> <td>(d) वैसलीन</td> </tr> </tbody> </table> <p>(i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)      (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(b)      (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)      (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)</p>	कॉलम I	कॉलम II	(i) पैराफिन मोप	(a) भारी मोटर वाहनों का ईंधन	(ii) बिटुमेन	(b) निर्जल धुलाई (ड्राई क्लीनिंग) के लिए विलायक	(iii) डीजल	(c) पेन्ट	(iv) पेट्रोल	(d) वैसलीन	<p>98. Which one amongst the following is a fuel with highest calorific value ?</p> <p>(A) Petrol      (B) CNG      (C) Diesel      (D) Wood</p> <p>99. The consequence of deforestation is :</p> <p>(A) increase in the rainfall and fertility of the soil      (B) increase in the ground water levels      (C) increase of carbon dioxide levels in the atmosphere      (D) decrease of pollution levels in the atmosphere</p> <p>100. Column I has some of the constituents of Petroleum and Column II has their uses. Correctly match the constituents with their uses :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Column I</th> <th style="text-align: center;">Column II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) Paraffin wax</td> <td>(a) Fuel for heavy motor vehicles</td> </tr> <tr> <td>(ii) Bitumen</td> <td>(b) Solvent for dry-cleaning</td> </tr> <tr> <td>(iii) Diesel</td> <td>(c) Paints</td> </tr> <tr> <td>(iv) Petrol</td> <td>(d) Vaseline</td> </tr> </tbody> </table> <p>(A) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)      (B) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(b)      (C) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)      (D) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)</p>	Column I	Column II	(i) Paraffin wax	(a) Fuel for heavy motor vehicles	(ii) Bitumen	(b) Solvent for dry-cleaning	(iii) Diesel	(c) Paints	(iv) Petrol	(d) Vaseline
कॉलम I	कॉलम II																				
(i) पैराफिन मोप	(a) भारी मोटर वाहनों का ईंधन																				
(ii) बिटुमेन	(b) निर्जल धुलाई (ड्राई क्लीनिंग) के लिए विलायक																				
(iii) डीजल	(c) पेन्ट																				
(iv) पेट्रोल	(d) वैसलीन																				
Column I	Column II																				
(i) Paraffin wax	(a) Fuel for heavy motor vehicles																				
(ii) Bitumen	(b) Solvent for dry-cleaning																				
(iii) Diesel	(c) Paints																				
(iv) Petrol	(d) Vaseline																				

**Jawahar Navodaya Vidyalaya: 9th Class Admission Test-2024 Key**

QN	ANS	QN	ANS	QN	ANS	QN	ANS
1	C	26	A	51	D	76	A
2	C	27	B	52	C	77	C
3	B	28	B	53	A	78	C
4	A	29	B	54	A	79	A
5	B	30	C	55	B	80	B
6	D	31	A	56	B	81	D
7	D	32	C	57	A	82	B
8	B	33	B	58	B	83	A
9	B	34	C	59	B	84	D
10	C	35	B	60	B	85	D
11	A	36	A	61	NA	86	D
12	D	37	B	62	A	87	B
13	A	38	C	63	B	88	A
14	A	39	NA	64	A	89	D
15	D	40	B	65	A	90	D
16	A	41	B	66	C	91	A
17	C	42	D	67	B	92	B
18	D	43	A	68	A	93	D
19	C	44	B	69	D	94	C
20	A	45	B	70	D	95	A
21	D	46	C	71	D	96	B
22	B	47	A	72	C	97	D
23	C	48	D	73	D	98	C
24	C	49	C	74	B	99	C
25	D	50	C	75	D	100	C